

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

G-82, Kirti Nagar, Delhi-110015

011-42083083
 info@sircapaints.com

CIN NO: L24219DL2006PLC145092

August 15, 2023

To,

The Managing Director

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

NSE Symbol-SIRCA

To,

The General Manager

BSE Limited

Department of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

BSE Scrip Code:543686

SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT- FINANICAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

Dear Sir/Ma'am,

We are pleased to inform that Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the advertisement published in Business Standard (English) all editions and Business Standard (Hindi), New Delhi edition on August 14, 2023.

This is for your information and records.

Thanking you

Yours faithfully,

For Sirca Paints India Limited

Suraj Singh

Company secretary & Compliance officer

Encl: As above

CORPORATE OFFICE: 3 rd Floor, Bajaj Finserv, Panchshil Tech Park Viman Nagar, Pune Maharashtra, India - 411014. Branch office: 2nd Floor, Eden Plaza, Main GT Road, Opp: Suvidha Showroom, Near Gohana Chowk Panipat-132103(HR)

POSSESSION NOTICE

U/s 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

U/s 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act 2002.Rule 8-(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002.(Appendix-IV)
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of M/s BAJAJ FINANCE LIMITED (BFL) under the Security Interest Centrol of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. (sisued Demand Notice(s) to Borrower(s) /Co Borrower(s)/ Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s)/ Co Borrower(s)/ So Borrower(s)/ Co Borrower(s)/ Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Co Borrower(s)/ Guarantor(s) and the public in general that the undersigned on behalf of M/s Bajaj Finance Limited, has taken over the possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8-(1) of the said rules. The Borrower(s)/ Cos Borrower(s)/ Guarantor(s) in general are hereby cautioned not to deal with the below said property and any dealings with the said property will be subject to the first charge of BFL for the amount(s) as mentioned herein under with future interest thereon.

Name of the Borrower(s)/Guarantor(s) (LAN No, Name of Branch)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	
	All That Piece And Parcel Of The Non-		10.AUG.2023
(LAN No. 4D1RLC32290626 ,	agricultural Property Described As:	Rs. 22,97,724/-	
	Khasra No.271 Plot No.43,44,68,&69 Indra		
1. MANISH ELECTRONIC (Through	Gandhi Nagar Dist Baran Rajasthan Kota	Lac Ninety Seven	
its proprietor/Authorised Signatory/	Rajasthan-325205, East :- Road, West :-road.,		
Managing Director)(Borrower)	North :- Road, South :-other Land	Hundred Twenty Four	
At Manish Electronic Shahbad Road		Only)	
Baran Nr Ambedkar Circle Kota-32520	5	•	
2.MANISH KUMAR SONI (Co-Borro	ower) At: KOTA ROAD JILA NYAYALAY K	E SAMNE BARAN KOTA	-325205

. PREMLATA BHANWARLAL (Co-Borrower) At KOTA ROAD JILA NYAYALAY KE SAMNE BARAN KOTA-325205 Date: 15/08/2023 Place:- KOTA **Authorized Officer Bajaj Finance Limited**

YES BANK LIMITED

YES BANK Regd. & Corporate Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055 CIN: L65190MH2003PLC143249, E-mail: communications@yesbank.in, Website: www.yesbank.in

POSSESSION NOTICE (U/s. Rule 8 (1) - for immovable property)

The undersigned being the Authorized Officer of YES Bank Ltd. under the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financials Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Sec. 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices calling upon the respective borrowers mentioned hereunder to repay the amounts mentioned in the respective notices U/s. 13(2) of the said Act within a period of 60 days.

The respective borrowers having failed to repay the said amounts, notice is hereby given to the borrowers and public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Sec. 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules. The respective borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the said

properties and any dealing with these properties will be subject to the charge of the YES Bank Ltd. for the respective amount mentioned herein below along with interest thereon at contracted rate.

Co-borrower / Mortgagor	A/c. No.	Description of Secured Asset		Date of Repossession
1. Mr. Vipin Rawat (Borrower & Mortgagor) 2. Ms. Rajni Rawat (Co-Borrower)	AFH000300930546 (A/c No. AFH000300629701 before Restructuring)	Flat No. F-1, Entire First Floor, without roof rights, built on free hold Plot No. 3/798, Sector- 3, Ghaziabad, Tehsil & District- Ghaziabad (U.P.)	Rs.15,92,945.82 (Rupees Fifteen Lakh Ninety Two Thousand Nine Hundred Forty Five and Paise Eighty Two Only)	26.05.2023 09.08.2023

As contemplated U/s.13 (8) of the Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or ransferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset

Place: Ghaziabad (U.P.) (Authorized Officer) Date: 09-08-2023 Yes Bank Limited

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069.



APPENDIX IV **POSSESSION NOTICE** (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

Sr.	Name of the Borrower(s)/	Description of Secured Asset	Demand Notice	Date of
No.	Co-Borrower(s)(Name of the Branch)	(Immovable Property)	Date & Amount	Possession
1	Loan Code No. 02600001018/ Bareilly Branch) Late. Chandra Pal Singh (Represented Through The Legal Heir) (Borrower), Kamlesh Chaudhary (Co-Borrower), Pushpa Devi (Guarantor)	All that piece and parcel of property bearing, House No 35 Part of Khasra No 143 Mehendra Nagar Near Royal Khand Univercity, Bareilly, Uttar Pradesh 243001. Boundaries : East- Rasta 9 Mtr. Wide, West- Khet of Gulab Singh, North- Plot of Smt. Vimla Devi, South-Plot of K.L. Sagar	18-07-2022 ₹ 5,30,632/-	

Place: Bareilly **Authorised Officer** Date: 15-08-2023 **Aadhar Housing Finance Limited**

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

CIN: L24219DL2006PLC145092

Registered & Corporate Office: G-82. Kirti Nagar, New Delhi-110015. Tel: +91-11- 42083083 Website: https://sircapaints.com/ Email: cs@sircapaints.com/

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED)

OF THE COMPANY FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 (Figures in Lacs expect EPS)

Sr.	PARTICULARS	STANDALONE			
No.			Quarter Ende	j	Year Ended
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	7,443.32	6,939.54	6,256.50	27,259.34
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	1,756.23	1,298.86	1,541.79	6,210.93
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,756.23	1,298.86	1,541.79	6,210.93
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,290.32	948.59	1,167.49	4,611.08
5.	Total Comprehensive Income for the period	1,290.32	938.96	1,167.49	4,601.45
6.	Equity Share Capital	5,480.88	2,740.44	2,740.44	2,740.44
7.	Other Equity	22,362.11	23,812.23	20,942.24	23,812.23
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	1. Basic: (not annualised)	2.35	1.73	2.13	8.41
	2. Diluted: (not annualised)	2.35	1.73	2.13	8.41

(Figures in Lacs expect FPS

	(rigures in Lacs expect EPS)						
Sr.	PARTICULARS	CONSOLIDATED					
No.			Quarter Ende	d	Year Ended		
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023		
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)		
1.	Total Income from Operations	7,443.32	6,939.54	6,256.50	27,259.34		
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	1,755.97	1,298.65	1,541.66	6,210.37		
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,755.97	1,298.65	1,541.66	6,210.37		
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,290.12	948.44	1,167.39	4,610.67		
5.	Total Comprehensive Income for the period	1,290.12	938.81	1,167.39	4,601.04		
6.	Equity Share Capital	5,480.88	2,740.44	2,740.44	2,740.44		
7.	Other Equity	22,358.83	23,809.14	20,939.46	23,809.14		
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)						
	1. Basic: (not annualised)	2.35	1.73	2.13	8.41		
	2. Diluted: (not annualised)	2.35	1.73	2.13	8.41		

NOTES:

Date: 14/08/2023

1. The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (www.sircapaints.com) and on the website of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com & www.bseindia.com.

. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on August 14, 2023.

For SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

Sanjay Agarwa Chairman Cum Managing Director (DIN: 01302479)

Personal Finance, **Monday to Saturday**

To book your copy, sms reachbs to **57575** or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out



400708 Also at: Axis Bank Ltd., Axis House, Tower T-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wis loida (U.P.)-201301 Corporate Office: 'Axis House', Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Wor Mumbai-400025 Registered Office: 'Trishul', 3rd floor, opposite Samartheswar Temple, Law garden, Ellisbridge, Ahmeda

POSSESSION NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcem Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notice upon the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Axis Bank Ltd. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrower / Co-borrower:- 1.Mr. Mohammad Raza Kahn S/o Mr. Hamid Raza Khan, 348, Padarthapur, Bareilly, Uttar Pradesh, India - 243123. Also At. Mr. Mohammad Raza Kahn S/o Mr. Hamid Raza Khan H. No-c 97, sector-50, Noida, Uattar Pradesh, India-201303 Also At- Mr. Mohammad Raza Kahn S/o Mr. Hamid Raza Khan 12, Near Old Rto Civil Lines, Bareilly Uttar Pradesh, India - 243001 2, Mr. Washim Raza Khan S/o Mr. Mohammad Raza Kahn Cv-3-105, Super Tech, Captown Sec-74, Noida Uttar Pradesh, India -201303 Also At. Mr. Washim Raza Khan S/o. Mr. Mohammad Raza Kahn 348,padarthapur, Bareilly, Uttar Pradesh, India - 243143 Also At. Mr. Washim Raza Khan Raza Nagar, Chungi, Padarathpur, Bareilly, Uttar Pradesh, India - 243123 3. Suhail Raza KhanS/o. Mr. Mohammad Raza Kahn, Cv-3-105, Super Tech, Captown, Sec-74, Noida Uttar

Pradesh, India-201303 Also At. Suhail Raza Khan S/o. Mr. Mohammad Raza Kahn, 348, padarthapur, Bareilly, Uttar Pradesh, India – 243143 Description of Property: Residential Bearing No. 'LEASE HOLD LAND' having are measuring 360.00 Sq. Mtrs. Residential Plot of Land as '97' Block 'C' located at 12. 00 MTRS. Wide Road situated in Sector '50' in the lay-out plan of New Okhla Industrial Development Area, NOIDA, Gautam BuddhNagar,(U.P.) together with 'residential Building' having total coverage area 440.17Sq. Mtrs. Construction category –RCC Class I, built thereupon the said 'Lease Hold Residential Plot of Land' numbered C-97, and bounded as per site Plan/Title Deed.

Date of Demand Notice | Date of Possession | Amount in Demand Notice (Rs.)Rs.2,87,05,424 /- (Rupees Two crore Eighty Seven Lakh 11-Aug-2023 Five Thousand Four HundredTwenty Four Only)

The above-mentioned Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) are hereby given a 30 days' Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days' from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date: 15-Aug-2023, Place: Noida Sd/- Authorized Officer, Axis Bank Ltd Sd/- Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

SWARNSARITA JEWELS INDIA LIMITED

(Formerly Known as Swarnsarita Gems Limited) CIN: L36911MH1992PLC068283

Regd. Office: 10, 1st Floor, Plot 40/42, Ruby Chambers, Dhanji Street, Zaveri Bazar, Mumbadevi, Mandvi Mumbai-400003 Tel. No.: 022-43590000 E-mail: info@swarnsarita.com Website: www.swarnsarita.com

ANCIAL RESULTS	FOR QUARTER E	NDED JUNE 30, 2	2023		(Rs. in Lakhs)		
	STANDALONE			CONSOLIDATED			
Quarter ended on 30.06.2023 Unaudited	Quarter ended on 30.06.2022 Unaudited	Year ended on 31.03.2023 Audited	Quarter ended on 30.06.2023 Unaudited	Quarter ended on 30.06.2022 Unaudited	Year ended on 31.03.2023 Audited		
17291.52	20957.21	85168.66	19444.13	20943.86	84305.21		
627.35	369.98	681.85	743.58	355.62	841.11		
627.35	369.98	681.85	743.58	355.62	841.11		
470.51	277.49	510.10	557.68	266.71	629.16		
					623.52		
2083.76	2083.76	2083.76	2083.76	2083.76	2083.76		
-	-	-	-	-	-		
0.05		0.44			0.04		
					3.01		
	Quarter ended on 30.06.2023 Unaudited	STANDALONE Quarter ended on 30.06.2023 Unaudited Unaudited 17291.52 20957.21 627.35 369.98 627.35 369.98 470.51 277.49 2083.76 2083.76 - - - -	STANDALONE Quarter ended on 30.06.2023 Unaudited Unaudited 17291.52 20957.21 85168.66 627.35 369.98 681.85 627.35 369.98 681.85 470.51 277.49 510.10 470.51 277.49 504.46 2083.76 2083.76 2083.76 2083.76 2225 1.33 2.44	Quarter ended on 30.06.2023 Unaudited Quarter ended on 30.06.2022 Unaudited Year ended on 30.06.2023 Audited Quarter ended on 30.06.2023 Unaudited 17291.52 20957.21 85168.66 19444.13 627.35 369.98 681.85 743.58 627.35 369.98 681.85 743.58 470.51 277.49 510.10 557.68 470.51 277.49 504.46 557.68 2083.76 2083.76 2083.76 2083.76 225 1.33 2.44 2.67	STANDALONE CONSOLIDATED		

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosur Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/ Yearly Financial Result are available on the website of the Stock Exchange i.e www.bseindia.com.The same are also available on the Company website i.e. www.swarnsarita.com For SWARNSARITA JEWELS INDIA LIMITED

Sd/-Sunny Mahendra Chordia Place: Mumbai WHOLE-TIME DIRECTOR Date: 14.08.2023 DIN: 06664041

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI BENCH-IV COMPANY APPLICATION CA (CAA) 9/230-232/ND/2023

In the matter of Section 230-232 read with the Companies (Compromises, Arrangements and amalgamations) Rules, 2016 of the Companies Act, 2013

In the matter of Scheme of Arrangement of PACIFIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi -110018

... Applicant No. 15 / Transferee Compa PICKUP TRADELINK PRIVATE LIMITED

naving Registered Office at 7, Bansdroni, New Government Colony, P.S. Regent Park, Kolkata, West Bengal-700070

... Non-Applicant /Transferor Company No. MUDRIKA FISCAL SERVICES PRIVATE LIMITED

having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018 Applicant No. 1 / Transferor Company No.

AND SUKHSAGAR VANIJYA PRIVATE LIMITED having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018 ... Applicant No. 2 / Transferor Company No. 3

URBAN PLAST PRIVATE LIMITED

having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018 ... Applicant No. 3 / Transferor Company No. AND

LAKSHYA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018 ... Applicant No. 4 / Transferor Company No.

CIPL ESTATES PRIVATE LIMITED having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018

... Applicant No. 5 / Transferor Company No.

JAI HANUMAN INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018

... Applicant No. 6 / Transferor Company No.

RAJESH CORPORATION PRIVATE LIMITED

having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018 ... Applicant No. 7 / Transferor Company No. 8

SUDARSHAN HOUSING & FINANCE PRIVATE LIMITED

having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018 ... Applicant No. 8 / Transferor Company No.

DISHANK CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi -110018 ... Applicant No. 9 / Transferor Company No. 10

AND PACIFIC MOTELS PRIVATE LIMITED

having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018 ... Applicant No. 10 / Transferor Company No. 1

PASSION BUILDTECH PRIVATE LIMITED

having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018

.. Applicant No. 11 / Transferor Company No. 12

NANDANA PROPBUILD PRIVATE LIMITED having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018

... Applicant No. 12 / Transferor Company No. 13 MRG DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, Delhi –110018
... Applicant No. 13 / Transferor Company No. 14 / Demerged Company No.

AND

PACIFIC BUILDCON PRIVATE LIMITED having Registered Office at Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Naiafgarh Road, Delhi -110018

... Applicant No. 14 / Transferor Company No. 15 / Demerged Company No. 2 NOTICE CONVENING MEETING OF THE UNSECURED CREDITORS OF PACIFIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Notice is hereby given that by an order dated 27th July, 2023 ("said Order"), the Hon'ble National Company Law Tribunal

New Delhi Bench-IV ("Tribunal") inter alia, has directed that a meeting of the unsecured creditors of PACIFIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED be held for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the Scheme of Arrangement amongst Pickup Tradelink Private Limited ("Transferor Company 1 or "PTPL" or "Non-Applicant Company"), Mudrika Fiscal Services Private Limited ("Transferor Company 2 or "MFSPL" or "Non-Applicant Company 2 or " or "Applicant Company 1"), Sukhsagar Vaniiya Private Limited ("Transferor Company 3 or "SVPL" or "Applican Company 2"), Urban Plast Private Limited ("Transferor Company 4" or "UPPL" or "Applicant Company 3"), Lakshya Commercial Private Limited ("Transferor Company 5" or "LCPL" or "Applicant Company 4") . CIPL Estates Private Limited ("Transferor Company 6 or "CEPL" or "Applicant Company 5"), all Hanuman Investment Consultants Private Limited ("Transferor Company 7" or "JHICPL" or "Applicant Company 6"), Rajesh Corporation Private Limited ("Transferor Company 7" or "JHICPL" or "Applicant Company 6"), Rajesh Corporation Private Limited ("Transferor Company 8" or "RCPL" or "Applicant Company 7"), Sudarshan Housing & Finance Private Limited ("Transferor Company 9" or "SHFPL" or "Applicant Company 8"), Dishank Constructions Private Limited ("Transferor Company 9" or "SHFPL" or "Applicant Company 8"), Dishank Constructions Private Limited ("Transferor Company 9") Company 10" or "DCPL" or "Applicant Company 9"), Pacific Motels Private Limited ("Transferor Company 11" or "PMPL" or "Applicant Company 10"), Passion Buildtech Private Limited ("Transferor Company 12" or "PDPL" or "Applicant Company 12" or "PDPL" or "Republicant Company 13" or "PDPL" or "Republicant Company 14" or "PDPL" or "PDPL" or "Republicant Company 14" or "PDPL" or "Applicant Company 11"), Nandana Propbuild Private Limited ("Transferor Company 13" or "NPPL" or "Applicar Company 12"), MRG Developers Private Limited ("Transferor Company 14" or "Demerged Company No. 1" or "MDPL" or "Applicant Company 13"), Pacific Buildcon Private Limited ("Transferor Company 15" or "Demerged Company No 2" or "PBPL" or "Applicant Company 14") with Pacific Development Corporation Limited ("Transferee Company" o "PDCL" or "Applicant Company 15").

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that a meeting of unsecure creditors of Pacific Development Corporation Limited (Transferee Company) will be held on Saturday, the 23rd day of September, 2023 at 10:30 A.M. at Sriram Hall, PHD Chamber of Commerce and Industry, August Kranti

Copies of the said Scheme of Arrangement and of the Statement under Section 230 of the Companies Act, 2013 will be circulated to the unsecured creditor(s) of Pacific Development Corporation Limited (Transferee Company). A Copy of sucl notice can be obtained free of charge from the registered office of Pacific Development Corporation Limited (Transfere Company) as mentioned above or at the office of its Advocate, i.e., Zeus Law Associates, 2 Palam Marg, Vasant Vihar, Ne

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in the said meeting in person or by proxy, provided that all th proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of Pacific Development Corporation Limited (Transferee Company) as mentioned above not later than 48 hours before the meetings Form of proxy can also be obtained from the registered office of Pacific Development Corporation Limited (Transfere

The Hon'ble National Company Law Tribunal has appointed Mr. Chandra Bhan Singh as the Chairperson, Mr. Akaant Kly

s the Alternate Chairperson and Ms. Aditi Gupta as Scrutinizer for the aforesaid meeting. The above-mentioned Scheme of Arrangement, if approved in the aforesaid meeting, will be subject to the subseapproval of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench-IV, New Delhi.

(Mr. Chandra Bhan Singh)
(CHAIRPERSON APPOINTED FOR THE MEETING) Dated this 15th day of August, 2023 at New Delhi

Government of Jammu and Kashmir Office of the Chief Engineer PMGSY (JKRRDA) Kashmir

NOTICE INVITING e-TENDERS

E-NIT NO: 04/CE/PMGSY/KMR OF 2023-24

Chief Engineer PMGSY (JKRRDA) Kashmir on behalf of Government of Jammu & Kashmir invites Percentage rate bids in electronic tendering system for upgradation of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for the following works ncluding their maintenance for five years from the eligible and approved contractors registered with J&K State Govt. CPWD. Railways and other State Governments.

Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 14-08-2023.

Cost of Bid Form: Rs 6000/- per package (non-refundable) only in form of online payment mode The payment of Bid security and cost of Bid document is to be done online on e-tendering website along

	with the submission of Bids.									
		Tendere		•		p ĝ	JO.		G	
S. No.	Name of Work with Package No. and Name of Division	Construction Part SS	Maintenance sur Dart	Total cost of work	Cost of document (Amount in Rupees	Eamest Money (Bid Security) (Rs. in Lacs)	Time of completion For Construction work	Tender Call	Time and Date of opening of tenders online (Technical Bid)	Class of contractor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Upgradation & Maintenance of Road MR1.18-Shankarpora to Mantipore via Shangran PMGSY III (Batch., 2023-24, Stage-U, Length=6.00Km, Carriageway Width= 3.75 Mtrs. Package No JK01-3016, PMGSY Division Anantnag.	661.71	79.40	741.11	6000	14.82	548 days		05-09-2023 At 11:30 A.M	"A" Class in PWD or Equivalent in CPWD/ Railways and other state Governments.
2	Upgradation & Maintenance of road from MRL01-Shoolipora to Sangrampora via Danas-Paras, PMGSY-III (Batch-I, 2023-24), Stage U, Length: 6.97 Km. Carriageway Width= 3.75 Mtrs. Package No JK02-3013, PMGSY Division Budgam.	684.46	82.14	766.60	6000	15.33	548 days	1st	05-09-2023 At 11:30 A.M	"A" Class in PWD or Equivalent in CPWD/ Railways and other state Governments.
3	Upgradation & Maintenance of road from T02-Gohan To Zaloora, PMGSY-III (Batch-I, 2023-24), Stage U, Length: 4.00 Km. Carriageway Width= 5.50 Mtrs. Package No JK03-3023, PMGSY Division Baramulla.	638.88	76.67	715.55	6000	14.31	548 days	1st	05-09-2023 At 11:30 A.M	"A" Class in PWD or Equivalent in CPWD/Railwa ys and other state Gov.
4	Upgradation & Maintenance of road from MR.13-Nifru Chakoora Naina, PMGSY-III (Batch-I, 2023-24), Stage U, Length: 8.00 Km. Carriageway Width= 5.50 Mtrs. Package No JK10-3015, PMGSY Division Pulwama.	1194.70	143.37	1338.07	6000	26.76	548 days	1st	05-09-2023 At 11:30 A.M	"A" Class in PWD or Equivalent in CPWD/Railwa ys and other state Gov.
5	Upgradation & Maintenance of road from MRL04-Drabgham to Thokerpora, PMGSY-III (Batch-I, 2023-24), Stage U, Length: 5.430 km. Carriageway Width=3.75 Mtrs. Package No JK10-3020, PMGSY Division Pulwama.	778.34	93.40	871.74	6000	14.73	548 days	1st	05-09-2023 At 11:30 A.M	"A" Class in PWD or Equivalent in CPWD/Railwa ys and other state Gov.
6	Upgradation & Maintenance of road from T01-Checknorpora to Tral via Batagund, PMGSY-III (Batch-I, 2023-24), Stage U, Length: 11.00 Km. Carriageway Width- 5.50 Mtrs. Package No JK10-3014, PMGSY Division Pulwama.	1328.39	159.41	1487.80	6000	29.76	548 days	1st	05-09-2023 At 11:30 A.M	"A" Class in PWD or Equivalent in CPWD/Railwa ys and other state Gov.
7	Upgradation & Maintenance of road from T01-Muqam to Mungwalpora Via Gund Chabutri, Chakaporan and Harawat, PMGSY-III (Batch-I, 2023-24), Stage U, Length: 9.20 Km. Carriageway Width= 3.00 Mtrs. Package No JK08-3109, PMGSY Division Handwara.	782.66	93.92	876.58	6000	17.53	548 days	1st	05-09-2023 At 11:30 A.M	"A" Class in PWD or Equivalent in CPWD/ Railways and other state Governments.

Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submittee the bild becurred and mode of submission. The bid documents available of little and to should be submission whether www.pmgsytenders.gov.in. The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. Fc sion of bids, the bidder is required to have valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying. Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in PMGS" may obtain the same from the website: www. pmgsytenders.gov.in Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the valid digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender The Bidding documents can be downloaded from the website http://pmgsytendersjk.gov.in from 16-08-2023 (10:00 AM) to

04-09-2023 upto (4:30 PM).

The Bids shall be deposited in electronic format on the website http://pmgsytendersjk.gov.in from 19-08-2023 (10:30 AM) to 04-09-2023 upto 4:30 PM. The bids uploaded on the Web Site up to due date and time will be opened online on 05-09-2023 at 11:30 AM in the presence of the bidders who wish to attend. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

The complete bidding process will be on line. The advertised rates are exclusive of GST. The bidder shall quote % age (above or below) for the construction component only. However GST (g18% shall be added separately at the time of allotment.

A Pre-bid meeting will be held on 18-08-2023 at 11:30 AM in the Office of Chief Engineer PMGSY (JKRRDA) Kashmir at Engineering Complex Bund Road Rajbagh Srinagar to clarify the issues and to answer questions on any matter that may be raised at that stage as stated in Clause 9 of instruction to bidders of the Bidding documents. The intending Bidders, before

attending the Pre-bid meeting, are advised to visit the site of work and acquaint themselves with the site of conditions. It has been made mandatory for all the intending bidders to participate in the pre-bid meeting on the scheduled date and time. Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bloud be submisted online on website www.pmgsytenders.gov.in. The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For online of website www.pnigsytenders.govin. The indeed would be required to register in the web-site which is received or loss. For submission of bids, the bidder is required to have valid bigital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in PMGSY may obtain the same from the website: www.pmgsytenders.gov.in.

The bidder is not required to quote his rate for routine maintenance. The rates to be paid for routine maintenance are indicated in the Bill of Quantities. Further, the payment for routine maintenance to the contractor shall be regulated based on his

performance of maintenance activities.

The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than ninety days after the deadline date for bid

Bidders may bid for any one or more of the works mentioned in the Table above. To qualify for a package of contracts made up of this and other contracts for which bids are invited in the same NIT, the bidder must demonstrate having experience and resources sufficient to meet the aggregate of the qualifying criteria for the individual contracts.

The site for the work is available. 4. The site for the work is available.
5. The Hard Copy of original instruments in respect of original copy of affidavits and credit facility must be delivered by the first lowest bidder in the office of Chief Engineer PMGSY (JKRRDA) at Engineering Complex, Bund Road Rajbagh Srinagar Kashmir on a date not later than three working days affer the opening of financial qualification part of the bid either by Registered Post or by hand failing which the bids shall be declared non-responsive.
6. The bidders are advised to upload the required documents/information strictly as per the formats given in Section 3-Qualification

Information. The bidder who falls to comply with the said instructions shall be declared as non-responsive.

The date and time of opening of Financial-Bids shall be notified on Web Site http://pmgsytendersjk.gov.in. This is conveyed to the bidders automatically through an e-mail message on their e-mail address. The Financial-bids shall be opened accordingly on line on same Web Site at the Office of Chief Engineer PMGSY Kashmir, Engineering Complex Rajbagh, Srinagar Kashmir.

Other details can be seen in the bidding documents. The Employer shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any the property of the for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify and check the website for the latest information related to the tender. Corrigendum (if any) will be posted on the https://pmgsytendersjk.gov.in. All future correspondence/ corrigendum shall be published on the same website which should be regularly monitored by the intending

te:- The intending bidders are advised to study the entire bidding document before preparation and submission of their bids.

This includes clause 3 (Eligible Bidders), 4 (Qualification of Bidders) of ITB (Instruction to Bidders), Appendix to ITB, Section 3 (Qualification Information), Contract Data to G.C.C. & Section 7 of Bidding Document.

(Er. Tanvir Mir) (Er. Tanvir Mir)

No:- CE/PMGSY/KMR/e-Tendering/3932 Chief Engineer DIPK-7123/23 PMGSY (JKRRDA) Kmr.

NOTICE OF THE 20TH ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE NOTICE

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting ("AGM") of the AVSL Industries Limited is schedule to be held on Friday, Septembe 08, 2023 at 11:30 A.M at the registered office of the Company to transac the ordinary business and special business together with the annual repor for the financial year 2022-23. The 20th Annual General Meeting will be held in compliance with the provisions of the Companies Act 2013 and rules made thereunder Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI), collectively referred as "Circulars".

In Compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Financial Statements for the financial year 2022-23 along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto will be sent to all the members whose email addresses registered with the Company/ Depositories and the electronic and physical dispatch of Annual Report to members has been completed on August 14, 2023 The copy of the annual report is available on the Company's website Notice is further given pursuant to the Provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and accordance with the SEBI (LODR) Regulations requirements; the Registrar of Members and Share Transfer Books of the Companies will remain closed from August 31, 2023 to September 09 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of AGM and ir particular and instructions for joining AGM

For and on behalf of **AVSL Industries Limited** Sanjay Bansal (Managing Director)

Place - Delhi

Date - 14/08/2023

दिनांकः 12.08.2023





PVC / WPC Boards, Doors And Chaukhat

W aurelía * Wishful Delleven टीसीएनएस क्लोदिंग कं. लिमिटेड

सीआईएन : L99999DL1997PLC090978 कार्यालय : 119, डब्ल्यू हाउस, नीलगगन टॉवर, मंडी रोड, सुल्तानपुर, मेहरौली, नई दिल्ली-110030 कार्यालय : 119 एवं 127, डब्ल्यू हाउस, नीलगगन टॉवर, मंडी रोड, सुल्तानपुर, मेहरौली, नई दिल्ली-110030 दूरभाष : 011-42193193 ई-मेल : investors@tcnsclothing.com वेबसाइट : www.wfbrwoman.com

26वीं वार्षिक आम बैठक, ई-मेल पंजीकरण तथा ई-वोटिंग सम्बन्धी सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कथित एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्धारित व्यवसायो के लेन-देन के लिए टीसीएनएस क्लोदिंग कं. लिमिटेड (''कम्पनी'') की 26वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 11 सितम्बर, 2023 को 11.30 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.), वीडियो कांफ्रेंसिंह (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जानी निर्धारित है।

यह एजीएम कम्पनी अधिनियम, 2013 (''एजीएम'') तथा उसके तहत निर्मित नियमों, कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी एमसीए परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, एमसीए परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, एमसीए परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, एमसीए परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, एमसीए परिपत्र सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, एमसीए परिपत्र सं. 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, एमसीए परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 एवं अन्य प्रयोज्य परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी. 2023 (सामहिक रूप रे 'प्रयोज्य परिपत्र'') के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 26वीं एजीएम की सचना के माथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट विनीय विवरण और अन्य वैधानिक रिपोर्ट की ई-पित केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन सदस्यों के पास भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/कंपनी के रजिस्टार और टांसफर एजेंटस ('आरटीए') यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिन टेक') के साथ पंजीकत हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, वोटिंग निर्देशों सहित 26वीं एजीएम की सचना भी कंपनी की वेबसाइट https://wforwoman.com/content/report/financial-information, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, जिस पर कंपनी की प्रतिभृतियाँ सूचीबद्ध हैं, अर्थात् www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर और केफिन टेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर ('आरटीए' और 'ई–वोटिंग सुविधा प्रदाता') पर उपलब्ध है। कंपनी उन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की एक भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्रति (अनुरोध के अनुसार) भेजेगी जो विशेष रूप से अपने फोलियो नंबर, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडीका उल्लेख करते हुए investors@tcnsclothing.com

पर इसके लिए अनुरोध करेंगे। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। ऐसी भागीदार के संबंध में विस्तृत निर्देश बैठक बुलाने की सूचना में प्रदान किए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम परा करने के लिए की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और एजीएम में भागीदारी- कंपनी ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान इंस्टा पोल की सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से केफिन टेक की सेवाओं का लाभ उठाया है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार, 08 सितंबर, 2023 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और रविवार, 10 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बर्जे (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और बाद में एजीएम के दौरान इंस्टा पोल के लिए सक्षम किया जाएगा। डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टा पोल का तरीका सदस्यों को नोटिस में प्रदान किया जाएगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग के साथ-साथ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के संबंध में निर्देशों के लिए एजीएम नोटिस देखें।

केवल वे सदस्य, जिनका नाम सोमवार, 04 सितंबर,2023 ('कट-ऑफ तिथि') तक सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है. एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान इंस्टा पोल की सविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह umesh.pandey@kfintech.com या einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध

भेजकर 'यजर आईडी' और 'पासवर्ड' प्राप्त कर सकता है। एजीएम के नोटिस में 'यजर आईडी' और 'पासवर्ड' प्राप्त करने की विस्तत प्रक्रिया भी दी गई है. जिसे कंपनी की वेबसाइट और ऊपर उल्लिखित केफिन टेक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराय जाएगा। यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए केफिन टेक के साथ पंजीकत है. तो वह रिमोट ई-वोटिंग/इंस्टापोल के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा 'यूजर आईडी' और 'पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। रिमोट ई-वोटिंग/इंस्टापोल के क्रेडेंशियल का उपयोग सदस्य द्वारा

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए किया जाना है। 'सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा' पर सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD//CIR/P/2020/242 दिनांक 09 दिसंबर, 2020 के अनुसार, सभी व्यक्तिगत डीमैट खाता धारकों के लिए उनके डीमैट खाते/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट ('डीपी') के माध्यम से, एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम कर दी गई है। इसके लिए लिंक इस प्रकार हैं:

THE PART OF THE PA								
डिपॉजिटरी	पहले से पंजीकृत सदस्य	अपंजीकृत सदस्य	प्रथम बार के यूजर्स के लिए वेबसाइट का डाइरेक्ट एक्सेस					
एनएसडीएल	यूआरएल https://eservices.nsdl. com पर जायें और 'IDeAS' के तहत "Beneficial Owner" पर क्लिक करें	पंजीकृत करने के लिए लिंक https:// eservices.nsdl.com/ SecureWeb/IdeasDir ectRegjsp पर क्लिक करें	यूआरएल : httpsMvww.evot- ing.nsdl.com/ देखें					
सीडीएसएल	यूआरएल: https:// web.cdslindia.com/ myeasi/home/login या www.cdslindia.com फिर Login पर जाएं और "New System Myeasi" सेलेक्ट करें	पंजीकृत करने के लिए लिंक https://web.cdslin- dia.com/ myeasi/Registtation/ EasiRegistration पर क्लिक करें	यूआरएल : https://www.cdslin dia.com/ देखें					

सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के उपरान्त भी एजीएम में भाग ले सकते हैं किन्तु दुबार इंस्टा पोल पर वोटिंग करने के पात्र नहीं होंगे।

. एजीएम में उपस्थित होने के उद्देश्य के लिए ई–मेल आईडी के गैर–पंजीकरण, ई–वोटिंग, सूचना की गैर–प्राप्ति तथा वार्षिक रिपोर्ट या किसी अन्य स्पष्टीकरण से सम्बन्धित किसी शिकायत के लिए आप कम्पनी सं investors@tcnsdothing.com या कम्पनी के आरटीए से einward.ris@kfintech.com evoting@kfintech.com/ umesh.pandey@kfintech.com पर सम्पर्क कर सकते हैं या टोलफ्री नम्बर 18003094001 पर सम्पर्क करें।

26वीं एजीएम की सूचना सदस्यों को लागू कानूनों के अनुसार उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उचित समय पर भेजी जाएगी। मोर्ड के आदेशानस

कते टीसीएनएस क्लोदिंग कं. लिमिटेड

लार्क ट्रेडिंग एंड फाईनेंस लिमिटेड

सीआईएनः L34102UP1987PLC009222 पंजीकृत कार्यालयः सी–273, सेक्टर-63, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 फोनः 011-22159466, ईमेलः Larktradingfinance@gmail.com, वेबसाइटः www.larktrading.in 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(सेबी(एलओडीआर) विनियमावली, 2015 का विनियम 47(1)(बी)

(
A		तिमाही समाप्त						
विवरण	तिमाही समाप्त व 30.06.2023 31.03.2023 30.06.2022 3							
	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षत)	(लेखापरीक्षित)				
आय								
(i) प्रचालनों से	17.54	21.62	17.81	76.24				
(ii) अन्य आय	-	0.21	-	0.21				
कुल आय	17.54	21.83	17.81	76.45				
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	4.50	19.73	(11.52)	14.50				
(कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पूर्व)								
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि)	4.50	19.73	(11.52)	14.50				
(विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)								
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	4.50	15.98	(11.52)	8.72				
(विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)								
अवधि के लिए कुल समग्र आय	4.50	15.98	(11.52)	8.72				
[अवधि के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय								
(कर पश्चात) शामिल]								
इक्विटी शेयर पूंजी	526.00	526.00	526.00	526.00				
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	-	-	-	187.39				
पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)								
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10 / – प्रत्येक के)								
(चालू व बंद प्रचालनों के लिए) –								
1. बेसिक	0.09	0.30	(0.22)	0.17				
2. डायल्यूटेड	0.09	0.30	(0.22)	0.17				

नोटः ऊपर सेबी (सुचीबृद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटः <u>www.msei.in</u> और कंपनी की वेबसाइ www.larktrading.in पर भी उपलब्ध है।

हिते लार्क टेडिंग एंड फाईनेंस लिमिटेड (सुमित तायल)

पूर्णकालिक निदेशक डीआईएन: 0659804

सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : L24219DL2006PLC145092 पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: जी-82, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015, दूरभाष: +91-11-42083083

वेबसाइट : https://sircapaints.com/ ई-मेल : cs@sircapaints.com 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और

समेकित वित्तीय परिणामों के निष्कर्ष (आंकड़े लाख में ईपीएस अपेक्षा)

क्र.	विवरण		स्टैंडअ	लोन		
सं.		₹	तमाप्त तिमाई	ो	समाप्त वर्ष	
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	
		(अ-लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अ-लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	
1.	प्रचालनों से कुल आय	7,443.32	6,939.54	6,256.50	27,259.34	
2.	अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,756.23	1,298.86	1,541.79	6,210.93	
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	1,756.23	1,298.86	1,541.79	6,210.93	
4.	कर पश्चात् की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	1,290.32	948.59	1,167.49	4,611.08	
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	1,290.32	938.96	1,167.49	4,601.45	
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5,480.88	2,740.44	2,740.44	2,740.44	
7.	अन्य समता	22,362.11	23,812.23	20,942.24	23,812.23	
8.	आय प्रति अंश (रु 10/- प्रत्येक का)					
	1. मूल (अवार्षिकीकृत)	2.35	1.73	2.13	8.41	
	2. तनुकृत (अवार्षिकीकृत)	2.35	1.73	2.13	8.41	
			(ori	÷ -	0	

			(आंकर	ड़े लाख में ईप	गीएस अपेक्षा)		
क्र.	विवरण	समेकित					
सं.		7	समाप्त तिमाई	ी	समाप्त वर्ष		
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023		
		(अ-लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अ-लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		
1.	प्रचालनों से कुल आय	7,443.32	6,939.54	6,256.50	27,259.34		
2.	अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,755.97	1,298.65	1,541.66	6,210.37		
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	1,755.97	1,298.65	1,541.66	6,210.37		
4.	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	1,290.12	948.44	1,167.39	4,610.67		
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	1290.12	938.81	1,167.39	4,601.04		
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5,480.88	2,740.44	2,740.44	2,740.44		
7.	अन्य समता	22,358.83	23,809.14	20,939.46	23,809.14		
8.	आय प्रति अंश (रु 10/- प्रत्येक का)						
	1. मूल (अवार्षिकीकृत)	2.35	1.73	2.13	8.41		
	2. तनुकृत (अवार्षिकीकृत)	2.35	1.73	2.13	8.41		
_							

उपरोक्त जो है वो सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दर्ज स्टेंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप विवरण का एक निष्कर्ष है। स्टेंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण का पूर्ण प्रारूप परिणाम कंपनी की वैबसाइट (www.sircapaints.com) और स्टॉक एक्सचेंजों (www.nseindia.com & www.bseindia.com) की वैबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

कृते सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(ਤੀआईएन : 01302479)

दिनांक : 14/08/2023

दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड CIN: L29130HR1986PLC081555

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24-26, आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरुग्राम-122050, हरियाणा कार्पो. कार्यालय : मिलेनियम प्लाज़ा, टावर-बी, सुशान्त लोक-।, सेक्टर-27, गुरुग्राम -122002, हरियाणा

फोन : + 0124-4715100 Fax: + 0124-2806085 वैबसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल : secretarial@thehitechgears.com

जन 30. 2023 को समाप्त तिमाही हेत अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

		(ক্ত.	मिलियन में, सिवा	य प्रति शेयर डेट
क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त
		30/06/2023 (अनंकेक्षित)	31/03/2023 (अंकेक्षित)	30/06/2022 (अनंकेक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	2,665.91	11,771.55	2,938.67
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	122.93	339.42	61.49
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	122.93	339.42	61.49
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	92.99	231.14	3.68
5.	तिमाही/वर्ष हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) शामिल है)]	111.76	260.64	43.13
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	187.68	187.68	187.68
7.	आस्तियों एवं देयताओं के विवरण के अनुसार अन्य इक्विटी		3,356.58	
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु) —			
	(क) मूल : (ख) तनुकृत :	4.95 4.94	12.32 12.30	0.20 0.20

नोट्स :-

1) उक्त अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम अंकेक्षण समिति द्वारा अगस्त 14, 2023 को आयोजित उसकी बैठक में पुनरीक्षित किए गए थे और तदुपरांत कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अगस्त 14, 2023 को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित पनरीक्षण किया गया है।

2) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में दाखिल किए गए जून 30, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारिकत

जून 30, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.thehitechgears.com) पर उपलब्ध है। 3) सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1)(ख) के अनुसरण में, कम्पनी की मुख्य पृथक्कृत वित्तीय सूचना के

विषय में अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है 4) समीक्षा अवधि के दौरान, दो पूर्णतया स्वाधिकृत स्टेप डाउन सहायक कम्पनियां नामतः 2323532 ओन्टारियो इन्क. तथा 2504584 ओन्टारियो इन्क जून 15, 2023 की प्रभावी तिथि से "दि हाई–टेक गियर्स कनाडा इन्क. (कम्पनी की पूर्णतया स्वाधिकृत स्टेप डाउन सहायक कम्पनी) के साथ समामेलित की जा चकी हैं।

ord release to the control of the co				
विवरण	तिमाही	वर्ष	तिमाही	
	समाप्त	समाप्त	समाप्त	
	30/06/2023	31/03/2023	30/06/2022	
	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	
परिचालन से आय और अन्य आय	1,830.31	7,906.05	1,953.88	
कर पूर्व लाभ	135.90	693.95	170.55	
कर पश्चात लाभ	103.06	503.40	108.64	
कृते एवं हिते निदेशक मंडल				

दें हाई-टेक गियर्स लिमिटेड हस्ता. पर्णव कपूरिया प्रबंध निदेशक (DIN: 00006195) इलेक्ट्रॉनिक

वोटिंग

सुश्री पल्लवी महात्रे



कंपीटेंट ऑटोमोबाइल्स कंपनी लिमिटेड

पंजी. कार्या : कंपीटेंट हाउस, एफ-14, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 सीआईएन: L34102DL1985PLC020668, दूरमाष: 011-45700000 ईमेल : cs@competent-maruti.com, वेबसाइट : www.competent-maruti.com

	30-06-2023 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांग (ङ. नख में)					
	परिणामों के विवरण का सारांश					
क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30—06—2023 अलेखापरीक्षित	समाप्त तिमाही 30—06—2022 अलेखापरीक्षित	समाप्त वर्ष 31—03—2023 लेखापरीक्षित		
1.	परिचालनों से कुल आय/राजस्व	47799.78	36242.66	173152.97		
2.	अवधि हेतु निवल लाम/हानि (कर तथा आपवादिक मदों से पूर्व)	784.06	632.03	3443.28		
3.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाम/हानि (आपवादिक मदों से पूर्व)	576.21	472.03	2473.08		
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाम/हानि (आपवादिक मदों के उपरांत)	576.21	472.03	2473.08		
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	_	-	_		
6.	समता अंश पूंजी	614.60	614.60	614.60		
7.	आय प्रति अंश (रु. 10/— प्रत्येक का)					
	मूलभूत	9.38	7.68	40.24		
	तरलीकृत	9.38	7.68	40.24		
	0.0:					

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14-08-2023

उपरोक्त सारांश, सेबी (सचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक् एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.competent-maruti.com)

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा एवं संस्तुति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा बोर्ड द्वारा 14-08-2023 को आयोजित अपनी संबंधित बैठक में अनुमोदित किये गये हैं।

समस्त अवधियों के लिये प्रस्तुत वित्तीय परिणामों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 के अंतर्गत अधिसुचितानुसार, आईएनडी एस, के अनुसार तैयार किया गया है।

> कृते कंपीटेंट ऑटोमोबाइल्स कंपनी लिमिटेड हस्ता. / राज चोपड अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



डीमफोक्स सर्विसेज लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L51909DL2008PLC177181 पंजीकृत कार्यालयः 22, डीडीए फ्लैट्स पंचशील पार्क, शिवालिक रोड, नई दिल्ली – 1100017, दूरभाषः 0124-4037306 ई-मेलः investor.support@dreamfolks.in, वेबसाइटः www.dreamfolks.in

15वीं वार्षिक आम बैठक और रिमोट ई-वोटिंग जानकारी सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सचीयन विनियम'') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र 14/2020 (दिनांक 8 अप्रैल, 2020), 17/2020 (दिनांक 13 अप्रैल, 2020), 20/2020 (दिनांक 5 मई, 2020) और नवीनतम 10/2022 (दिनांक 28 दिसम्बर, 2022), क्रमशः (''एमसीए परिपत्र'') एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआइआर/पी/2020/79 (12 मई 2020) संबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआई आर / पी / 2021 / 11 (15 जनवरी, 2021) सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 (13 मई, 2022) ओर नवीनतम परिपत्र सं सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी – 2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 (5 जनवरी, 2023) ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन मे आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए ड्रीमफोक्स सर्विसेज लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 15वीं वार्षिक आँम बैठक (''एजीएम'') बुधवार, 6 सितम्बर, 2023 को प्रातः 11.30 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमें ("ओएवीएम") के द्वारा

उपरोक्त कथित एमसीए तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सचना (जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ वीसी एवं ई–वोटिंग के माध्यम से बैठक में भागीदारी के विस्तृत निर्देश शामिल हैं). उपरोक्त कथित परिपत्रों के अनुसरण में उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भेज दी गई हैं जिनके ई–मेल आईडी कंपनी / शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को भेजने का कार्य 14 अगस्त, 2023 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त डिस्पैच का कार्य पूरा करने के बाद सदस्यगण investor.support@dreamfolks.in पर विशेष अनुरोध भेजकार ऐसे सदस्यों की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के भी हकदार हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.dreamfolks.in/company-announcements और बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीयन बाध्यकताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से 15वीं एजीएम की सूचना में प्रस्तावित संकल्पों पर

अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की जाती है। एजीएम की सूचना में शेयरधारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्मय से अपना वोट देने एवं वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

कट—ऑफ तिथि अर्थात् 30 अगस्त, 2023 को या तो भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सचना में निर्धारित सभी व्यवसायों पर इलेक्टॉनिकली अपना वोट दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि:

1. एजीएम की सुचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग द्वारा किया

2. रिमोट ई—वोटिंग रविवार, 3 सितम्बर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और मंगलवार, 5 सितम्बर, 2023 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी;

रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम में ई—वोटिंग द्वारा वोट के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कट—ऑफ तिथि 30 अगस्त, 2023

है और ऐसा व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इसे केवल सचना का प्रयोजन मात्र समझे; व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा शेयर धारण करता हैं एवं योग्य है, वह एजीएम की सूचना में दिये गये अनुसार प्रक्रिया का पालन करके अपना लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जेनरेट कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है;

सदस्यगण यह भी नोट करें कि – (क) रिमोट ई-वोटिंग के लिए उपरोक्त कथित तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा ई—वोटिंग मॉड्यल हटा लिया जाएगा और सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; (ख) सदस्यगण जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे; (ग) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी; और (घ) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

सदस्यों से अनरोध है कि वे लाभांश आदि प्राप्त करने के लिए अपने फोलियों में अपना केवाईसी अपडेट करें. अपना ई–मेल पता पंजीकत कराएं एवं बैंक खाता विवरण अपडेट करें या परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना दे सकते हैं। इसके पंजीकरण / परिवर्तन की प्रक्रिया नीचे दी गई हैं।

भौतिक	निर्धारित फॉर्म आईएसआर—1 एवं अन्य संगत फॉर्म में अपने विवरण कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट
	अर्थात्
मामले में	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (वेस्ट),
	मुंबई—400083, ई—मेलः delhi@linkintime.co.in , फोनः 011.49411000 के पास पंजीकृत / अपडेट करें।
	कथित फॉर्म एवं सेबी परिपत्र (परिपत्र सं. सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी—
	पीओडी—1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023, यथा संशोधित) के संगत प्रावधान

कंपनी की वेबसाइट <u>www.dreamfolks.in</u> पर उपलब्ध हैं। 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद फोलियो में कोई भी अपेक्षित दस्तावेज नहीं होने पर फोलियो को आरटीएँ द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। अपेक्षित विवरण को प्रस्तुत करने के लिए व्यवसाय उत्तर लिफाफे के साथ सूचना पत्र कंपनी द्वारा भेज दी गई थी।

डिमेट धारित किपया अपने डीपी से संपर्क करें और आपके डीपी द्वारा दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डिमेट के मामले में खाते में अपना ई–मेल पता एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृत कराएं।

सदस्यगण, जो भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारित करते हैं और जिन्होंने कंपनी/अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अन्य सहित निवेशक पत्राचार प्राप्त करने के लिए शीघ्र अपना ई—मेल पता पंजीकृत कराएं। वार्षिक रिपोर्ट 2022—23 के साथ एजीएम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां

प्राप्त करने के प्रयोजन हेतू अस्थायी पंजीकरण के लिए सदस्यगण investor.support@dreamfolks.in पर लिख सकते हैं। कंपनी ने ट्रनेक्टॉनिक वोटिंग सविधा एवं वीसी सविधा पदान करने वाली एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं

ई—वोटिंग या वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निम्नलिखित को संपर्क कर सकते हैं:				
के लिए	नाम	ई—मेल	पता	फोन नं.

pallavid@nsdl.co.in

कमला मिल्स कम्पाउंड. एनएसडीएल 1800-222-990 evoting@nsdl.co.in सुविधा / वीसी लोअर परेल, मुंबई-400013 सुविधा निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते ड्रीमफोक्स सर्विसेज लिमिटेड

टेड वर्ल्ड – ए विंग

+91 22 24994545

हस्ता /-रंगोली अग्रवाल **स्थानः** गुरुग्राम कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी **दिनांक**ः 14 अगस्त, 2023

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 15 अगस्त, 2023

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स.सं. A21328

स्थान : नई दिल्ली तिथि : अगस्त 14, 2023